



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 564 राँची, शुक्रवार, 27 श्रावण, 1938 (श०)

18 अगस्त, 2017 (ई०)

परिवहन विभाग।

अधिसूचना

16 अगस्त, 2017

संख्या- परि०वि०-52/2009- 1088-- झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-15 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त रामकृष्ण मिशन आश्रम, राँची के निम्नांकित अनुदानित (केन्द्र सरकार/राज्य सरकार Blind Foundation) वाहनों, " जो जन कल्याण, स्वास्थ्य सेवा ,शिक्षा, कृषि एवं परमार्थ कार्यों में लगी हैं" को वाहनों के सामने उल्लेखित अवधि के लिए कर छूट की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	वाहन सं०/ प्रकार	कर छूट की अवधि	देय कर/अर्थ दण्ड की राशि
1	JH01K-2239 (JEEP)	18.01.2009 से 17.04.2017	20109.00
2	BR14P-2723 (JEEP)	27.08.2004 से 27.05.2017	43758.00
3	BR14P-0046 (JEEP)	20.09.1999 से 20.01.2017	60918.00
4	BR14P-0966 (JEEP)	30.06.2001 से 30.03.2017	59016.00
5	JH01T-4287 (MINI TURCK)	09.06.2008 से 08.06.2017	109836.00
6	JH01V-8577 (MINI TURCK)	17.08.2008 से 17.05.2017	106785.00
7	BR14P-2517 (MINI BUS)	24.03.2002 से 24.06.2017	572013.00
8	BR14P-0599 (MINI BUS)	31.03.1999 से 31.03.2017	634770.00
9	BR14P-2506 (BUS)	15.03.2002 से 14.06.2017	1168686.00
10	BR14D-6389 (TRACTOR)	07.06.2001 से 07.06.2017	4800.00
11	JH01AJ-6173 (TRACTOR)	21.12.2012 से 21.12.2017	1500.00
12	BRV-5633 (TRAILER)	02.07.1997 से 02.04.2017	130113.00
13	BR14P-0238	31.03.1999 से 31.03.2017	55728.00
14	BR14P-0667 (JEEP)	31.03.1999 से 31.03.2017	52488.00
15	BR14P-1504 (AMBULANCE)	31.03.2008 से 31.03.2017	77004.00
16	BRV-6782 (JEEP)	31.03.1980 से 31.03.2017	266400.00
17	BR14P-0711	31.03.1999 से 31.03.2017	67446.00

18	BR14C-7508 (TRACTOR)	19.11.2010 से 19.11.2017	2100.00
19	BR14C-9608 (TRACTOR)	30.05.2000 से 30.05.2017	5100.00
20	JH01AU-4113	05.08.2014 से 05.05.2017	41646.00
21	JH01AA-0965 (JEEP)	09.06.2011 से 09.06.2017	22482.00
22	JH02W-0671 (TRACTOR)	15.07.2014 से 15.04.2017	9846.00
23	JH01K-6798 (JEEP)	09.03.2016 से 31.03.2017	7692.00
			कुल राशि - 3520236.00

(पैंत्तीस लाख बीस हजार दो सौ छत्तीस) रू०

2. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की सहमति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

भूषण पासवान
उप सचिव
परिवहन विभाग।
